



लायन सर्विसेज लिमिटेड की नोएडा प्राधिकरण के साथ मिलकर सड़कों की मशीनी और मैनुअल सफाई की परियोजना में सहयोग की घोषणा - पहला चरण, 62.4 किमी

~ कई सफाई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, लायन सर्विसेज लिमिटेड 21 जनवरी, 2021 से नोएडा को स्वच्छ करने के लिए तैयार है

नोएडा, 21 जनवरी, 2021: लायन सर्विसेज लिमिटेड (पूरे भारत में एकीकृत नगरपालिका सेवाओं और सुविधाओं के प्रबंधन को प्रदान करती ग्लोबल एक्सीलेंस ग्रुप की प्रमुख कंपनी) ने नोएडा में सड़कों की मशीनी और मैनुअल सफाई की एक परियोजना में सहयोग की घोषणा की है जिसका पहला चरण 62.4 किमी का होगा। इस प्रस्तावित सहयोग के तहत, एक स्वच्छ नोएडा के लिए प्रतिबद्ध यह परियोजना शहर के इन्फ्रास्ट्रक्चर के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करेगी।

शहर के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने और उसके बेहतरिकरण की यह परियोजना 6 साल की अवधि के लिए लायन सर्विसेज को दी गई है जिसमें प्रमुख डिलिवरेबल्स में 20 से अधिक प्रमुख स्थानों पर मशीनी और मैनुअल सफाई (झाड़ू लगाना) शामिल हैं। इन प्रमुख स्थानों में एमपी-1 रजनीगंधा से 12/56 टी प्वाइंट, MP-2 से.18 अंडरपास से आरटीओ कार्यालय अंडरपास, एमपी -3 कालिंदीकुंज से हिंडन नदी, डीएससी रोड अशोक नगर से से.37 अंडरपास तथा अन्य शामिल हैं।

“हमारी परियोजना पर विश्वास करने और हमें एक बेहतर शहर बनाने में अपना योगदान देने का एक अवसर देने के लिए हम नोएडा प्राधिकरण के आभारी हैं। एक समुदाय के रूप में, हमें यह समझना चाहिए कि शहर की स्वच्छता केवल सफाई के इन्फ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, इसका अर्थ लोगों के दृष्टिकोण को बदलने और उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना भी है। यही वजह है कि हमारी सभी परियोजनाओं में अपने आसपास की स्वच्छता को बनाए रखने के प्रति लोगों में स्थानीय जागरूकता लाने का भी एक महत्वपूर्ण बिन्दु मौजूद है” सुनील सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लायन सर्विसेज लिमिटेड।

परियोजना को दो चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। पहला चरण होगा संचालन (ऑपरेशनल) योजना जिसमें एक गहन सर्वे और सड़कों की जीआईएस मैपिंग, एरिया मैपिंग (‘बीट’ का निर्माण व जांच), मशीनीकृत स्वीपिंग सड़क योजना, आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना, सपोर्ट टीम के लिए आकस्मिक योजना और जनबल परिनियोजन योजना के साथ एक ऑपरेशन कमांड सेंटर की स्थापना (वास्तविक समय पर नज़र रखने और उस पर निगरानी रखने के लिए एलएसएल की एक खास विशेषता) शामिल है। दूसरा चरण परियोजना के क्रियान्वयन का है जिसमें संचालन दल को ऑन-ग्राउंड प्रशिक्षण देकर सुपरवाइज़रों और एक्ज़ेक्यूटिवों को उनके कार्य, जिम्मेदारियाँ और ‘बीट’ सौंप दिए जाएंगे। निविदा और एलएसएल के एसओपी के अनुसार दैनिक/साप्ताहिक/मासिक/वार्षिक रिपोर्टिंग प्रारूप के आधार पर सभी परिचालन गतिविधियों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन को अंतिम रूप दिया जाएगा।

लायन सर्विसेज लिमिटेड ने हमेशा उन कार्यों में विश्वास किया है जो सतत विकास द्वारा एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। इस दृष्टिकोण के कारण कंपनी मोहाली, चंडीगढ़, बिलासपुर, पटना, रांची, भुवनेश्वर, प्रयागराज जैसे भारत के कई शहरों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है तथा अपनी पहल के लिए सरकार से विभिन्न सराहनाएँ व सम्मान प्राप्त कर चुकी है।



नोएडा जैसे संपन्न शहर में इस नई परियोजना के लिए कंपनी चुनौतियों व समस्याओं को हल करने, इंजीनियरिंग-संचालित समाधानों द्वारा सार्वजनिक कार्यों और शहर के इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रभावी प्रबंधन तथा नोएडा के सतत विकास की दिशा में योगदान करने हेतु नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए तत्पर है।

लायन सर्विसेज लिमिटेड

ग्लोबल एक्सीलेंस ग्रुप की प्रमुख कंपनी लायन सर्विसेज लिमिटेड सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए एकीकृत नगरपालिका सेवाओं और सुविधाओं के प्रबंधन का समाधान प्रदान करती एक अग्रणी संस्था है। 50 से अधिक वर्षों के अनुभव सहित, कंपनी पारंपरिक विचारों से परे जाने और नई तकनीकों तथा प्रौद्योगिकियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खुद को ढालने और मजबूत करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है।

कंपनी सार्वजनिक कार्यों और इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं के प्रबंधन एवं संपत्ति प्रबंधन सेवाओं के प्रभावी परिणामों के लिए पेशेवर सेवाएं प्रदान करती है। अनुभवी नेतृत्व, विशेष तकनीकी, 300 से अधिक मशीनों के अति-आधुनिक जत्थे और 5000 से अधिक पेशेवरों के प्रतिबद्ध कार्यबल के माध्यम से लायन सर्विसेज लिमिटेड की टीम क्लाइंट-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ एक बेहतर वातावरण के निर्माण द्वारा लोगों के बीच एक नए दृष्टिकोण लाने के अपने मिशन पर अग्रसर है। हमारे बारे में अधिक जानकारी के लिए

www.lionservice.com पर जाएं।